



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 4 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 13, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या एस-2-1/438871/दस-2023-1862-2021

लखनऊ, 4 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-52

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

1-(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(दो) यह 1 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त होगी।

नियम 17 का
प्रतिस्थापन

2- उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

17- ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-दो-ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी दो में चयन, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति पर साधारण श्रेणी के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारियों में से किया जायेगा, जिन्होंने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें चयन किया जाय, उस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जाएगी:-

(i) सरकार के वित्त विभाग के यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव- अध्यक्ष

(ii) सरकार के कार्मिक विभाग के सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो- सदस्य

(iii) कोषागार निदेशक, उ०प्र०- सदस्य

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

17- ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी दो-ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-दो में चयन, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, चयन समिति की संस्तुति पर साधारण श्रेणी के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारियों में से किया जायेगा, जिन्होंने कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें चयन किया गया हो, इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जाएगी:-

(एक) वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव- अध्यक्ष

(दो) कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव या उसके नाम निर्देशिती जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो- सदस्य

(तीन) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश- सदस्य

परन्तु यह कि सरकार विशेष परिस्थितियों में ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-दो में चयन के लिए नियत सेवा सीमा को शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. S-2-1/438871/X-2023-1862-2021, dated December 4, 2023:

No. S-2-1/438871/X-2023-1862-2021

Dated Lucknow, December 4, 2023

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following Rules with a view to amending the Uttar Pradesh Finance And Accounts Service Rules, 1992.

THE UTTAR PRADESH FINANCE AND ACCOUNTS SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and Commencement 1-(i) These rules may be called The Uttar Pradesh Finance And Accounts Service (Second Amendment) Rules, 2023.
(ii) They shall come into force with effect from July 1, 2023.

2. In the Uttar Pradesh Finance And Accounts Service Rules, 1992, for existing rules-17, as set out in Column-1 below the rules as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1*Existing Rule*

17. Senior Scale Grade-II-Selection to the Senior Scale Grade-II shall be made on the recommendation of a Selection Committee, on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such substantively appointed officers of the Ordinary Grade who have completed Eight Years service, as such on the first day of July of the calendar year in which the selection is made. The Selection Committee shall be constituted as under:

(i) The Principal Secretary or the Secretary, as the case may be, to the Government in Finance Department- Chairman

(ii) Secretary to the Government in Personnel Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary- Member

(iii) Director Treasuries, Uttar Pradesh- Member

Provided that the Government may, in the Special circumstances relax the limit of service fixed for selection to the Senior Scale Grade-II.

COLUMN-2*Rules as hereby substituted*

17. Senior Scale Grade-II-Selection to the Senior Scale Grade-II shall be made on the recommendation of a Selection Committee, on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such substantively appointed officers of the Ordinary Grade who have completed Seven Years service, as such on the first day of July of the calendar year in which the selection is made. The Selection Committee shall be constituted as under:

(i) The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary as the case may be, to the Government in Finance Department- Chairman

(ii) The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary as the case may be, to the Government in Personnel Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary- Member

(iii) Director Treasuries, Uttar Pradesh- Member

Provided that the Government may, in the Special circumstances relax the limit of service fixed for selection to the Senior Scale Grade-II.

By order,
DEEPAK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 1156 राजपत्र-2024 (3188)-599- (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 19 सा० वित्त -2024-(3189)-100- (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।